

Subject Code : C2

(EN/AS/BN/BD/HN)

2024

188071

GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 90Pass Marks : 27

Time : 3 hours

Candidates shall note that each question will be multilingual, viz., in English / Assamese / Bengali / Bodo / Hindi medium, for their ready reference. In case of any discrepancy or confusion in the medium / version, the English version will be considered as the authentic version.

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Unless stated otherwise, use $\pi = \frac{22}{7}$.

অন্য ধরণে দিয়া নাথকিলে $\pi = \frac{22}{7}$ বুলি ধরিব।

অন্য ধরনে দেওয়া না থাকলে $\pi = \frac{22}{7}$ বলে ধরবে।

গুৰুননৈ হোনায থায়ালা $\pi = \frac{22}{7}$ হ'ম।

यदि दिया गया न हो, $\pi = \frac{22}{7}$ मान का प्रयोग कीजिए।

SECTION-A

SECTION-A / क—शाखा / क—शाखा / क—बाहागो / क—भाग

Choose the correct answer :

শুন্দ উত্তরটো বাছি উলিওৱা :

শুন্দ উত্তরটি বেছে নাও :

গেৰেঁ ফিননাযখৌ সাযখ'না দিহুন :

সহী উত্তর চুনিএ :



1. The value of y in the blank space of the following table is

তলৰ তালিকাখনৰ খালী ঠাইত y -ৰ মান হ'ব

নীচেৰ তালিকাটিৰ শূন্যস্থানে y -এৰ মান হবে

গাহাযনি সংলাইনি লাদাং জায়গায়াৰ y নি মানা জাগোন

নীচে কী তালিকা মেঁ খালী স্থান y কা মান হোগা

x	1	2	4	8
y	32	16	8	—

(A) 8

(B) 6

(C) 4

(D) 2

2. Which of the following is not a perfect square?

তলৰ কোনটো বৰ্গসংখ্যা নহয় ?

নীচেৰ কোনটি বৰ্গসংখ্যা নয় ?

গাহাযনি মাবে বৰ্গ অনজিমা নড়া ?

নিম্নলিখিত মেঁ সে কৌন-সী বৰ্গ সংখ্যা নহীন হৈ ?

(A) 441

(B) 572

(C) 576

(D) 729

3. If m is the cube root of n , then the value of n is

যদি m , n বর্গমূল হয়, তেন্তে n বর্গমূল হ'ব

যদি m , n -এর ঘনমূল হয়, তাহলে n -এর মান হবে

জুড়ি m , n নি ঘন'রোদা জায়ে, অব্লা n নি মানা জাগোন

যদি m , n কা ঘনমূল হৈ, তো n কা মান হোগা

(A) \sqrt{m}

(B) $\sqrt[3]{m}$

(C) m^3

(D) m^2

4. Given that the LCM of 306 and 657 is 22338. What is the LCM of 102, 306 and 657?

দিয়া আছে যে, 306 আৰু 657-ৰ ল.স.গু. 22338. এতিয়া 102, 306 আৰু 657-ৰ ল.স.গু. কি হ'ব ?

দেওয়া আছে যে 306 এবং 657-এর ল.স.গু. 22338. 102, 306 এবং 657-এর ল.স.গু. কি হবে ?

হোনায দেখি 306 আৰু 657 নি দু.আ.সা. যা 22338. দানিয়া 102, 306 আৰু 657 নি দু.আ.সা. যা মা জাগোন ?

306 আৰু 657 কা LCM 22338 হৈ। অৰ 102, 306 আৰু 657 কা LCM হোগা

(A) 102

(B) 22338

(C) 22338×3

(D) 22338×102

5. Given two statements :

Statement (i) : The square of any positive odd integer $2k+1$ is always 1 more than a multiple of 8.

Statement (ii) : The square of any positive odd integer $2k+1$ is always 1 more than a multiple of 4.

দুটা উক্তি দিয়া আছে :

উক্তি (i) : ধনাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা $2k+1$ আৰিৰ বৰ্গ সদায় 8-ৰ গুণিতকতকৈ 1 বেছি।

উক্তি (ii) : ধনাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা $2k+1$ আৰিৰ বৰ্গ সদায় 4-ৰ গুণিতকতকৈ 1 বেছি।

দুটি উক্তি দেওয়া আছে :

উক্তি (i) : ধনাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা $2k+1$ -এর বৰ্গ সবদা 8-এর গুণিতক থেকে 1 বেশি।

উক্তি (ii) : ধনাত্মক অযুগ্ম সংখ্যা $2k+1$ -এর বৰ্গ সবদা 4-এর গুণিতক থেকে 1 বেশি।

मोननै बुंथि होनाय द :

बुंथि (i) : दाजाबथाइ बेज'रा अनजिमा $2k+1$ महरनि बर्गआ जेब्लाबो 8 नि
सानजाबथाइनिखुइ 1 बांसिन।

बुंथि (ii) : दाजाबथाइ बेज'रा अनजिमा $2k+1$ महरनि बर्गआ जेब्लाबो 4 नि
सानजाबथाइनिखुइ 1 बांसिन।



दो कथन दिए गए हैं :

कथन (i) : धनात्मक विषम पूर्णांक $2k+1$ का वर्ग हमेशा 8 के गुणज से 1 अधिक होगा।

कथन (ii) : धनात्मक विषम पूर्णांक $2k+1$ का वर्ग हमेशा 4 के गुणज से 1 अधिक होगा।

Choose the correct alternative.

शुद्ध विकल्पो वाछि उलिओरा।

शुद्ध विकल्पि बेछे नाओ।

गेबे खारिखौ सायख'ना दिहन।

सही विकल्प चुनिए।

(A) Both (i) and (ii) are true

(i) आरु (ii) दूयोटाइ सत्ता

(i) एवं (ii) दूटी सत्ता

(i) आरो (ii) मोननैबो थार

(i) और (ii) दोनों सत्य हैं

(B) (i) is true but (ii) is false

(i) सत्ता किन्तु (ii) असत्ता

(i) सत्ता किन्तु (ii) असत्ता

(i) आ थार नाथाय (ii) आ नंखाय

(i) सत्य है लेकिन (ii) असत्य है

(C) (i) is false but (ii) is true

(i) असत्ता किन्तु (ii) सत्ता

(i) असत्ता किन्तु (ii) सत्ता

(i) आ नंखाय नाथाय (ii) आ थार

(i) असत्य है लेकिन (ii) सत्य है

- (D) Both (i) and (ii) are false

(i) आरु (ii) दूयोटाई असते

(i) एवं (ii) दृष्टिकोण असते

(i) आरो (ii) मोननैबो नंखाय

(i) और (ii) दोनों असत्य हैं

6. Under what condition will $px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ be a cubic equation?

1

कि चर्तु $px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ एटा त्रिघात समीकरण ह'व ?



कि शर्ते $px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ एकटि त्रिघात समीकरण हवे ?

मा रादाइयाव $px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ आ मोनसे घनक समानथाइ जागोन ?

किस शर्त पर $px^3 + qx^2 + rx + s = 0$ एक त्रिघात समीकरण होगा ?

- (A) p, q, r and s are all non-zero

p, q, r आरु s गोटेहेबोर अशूना

p, q, r एवं s सबूलिइ अशूना

p, q, r आरो s गासैबो लाथिख ' नडा

p, q, r और s सभी अशून्य होंगे

- (B) $p \neq 0$ and $q \neq 0$

$p \neq 0$ आरु $q \neq 0$

$p \neq 0$ एवं $q \neq 0$

$p \neq 0$ आरो $q \neq 0$

$p \neq 0$ और $q \neq 0$

- (C) $p \neq 0$ or $q \neq 0$

$p \neq 0$ वा $q \neq 0$

$p \neq 0$ वा $q \neq 0$

$p \neq 0$ एवा $q \neq 0$

$p \neq 0$ अथवा $q \neq 0$

- (D) $p \neq 0$

7. When x is real number, the graph of the cubic polynomial $8x^3 - 1$

यदि x वास्तव संख्या है, तो $8x^3 - 1$ त्रिघात बहुपदों के लिए देखते हैं।

यदि x वास्तव संख्या है, तो $8x^3 - 1$ त्रिघात बहुपदों के लिए देखते हैं।

जब यदि x आ नंगुवै अनजिमा जाये, अबला $8x^3 - 1$ घनक बिंदाब गोबांनि बोसावगारिया

यदि x का मान एक वास्तविक संख्या हो, तो त्रिघात बहुपद $8x^3 - 1$ का ग्राफ़

- (A) does not intersect the x -axis

x -अक्षक छेद न करे

x -अक्षके छेद करे ना

x -गुदि हांखोखौ दानस'आ

x -अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करता है



- (B) intersects the x -axis at exactly one point

x -अक्षक मात्र एटा बिन्दुत्तेहे छेद करे

x -अक्षके मात्र एकठि बिन्दुत्तेहे छेद करे

x -गुदि हांखोखौ मोनसेल' बिन्दोआव दानस'यो

x -अक्ष को केवल एक बिन्दु पर ही प्रतिच्छेद करता है

0 = p बिन्दु 0 = q (B)

- (C) intersects the x -axis at two distinct points

x -अक्षक दुटा बेलेग बिन्दुत्त छेद करे

0 = p बिन्दु 0 = q

x -अक्षके दुटि भिन्न बिन्दुत्ते छेद करे

0 = p बिन्दु 0 = q

x -गुदि हांखोखौ मोनसै गुबुन गुबुन बिन्दोआव दानस'यो

0 = p बिन्दु 0 = q

x -अक्ष को दो अलग-अलग बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करता है

0 = p बिन्दु 0 = q (C)

- (D) intersects the x -axis at three distinct points

x -अक्षक तिनिटा बेलेग बिन्दुत्त छेद करे

0 = p बिन्दु 0 = q

x -अक्षके तिनिटि भिन्न बिन्दुत्ते छेद करे

0 = p बिन्दु 0 = q

x -गुदि हांखोखौ मोनथाम गुबुन गुबुन बिन्दोआव दानस'यो

0 = p बिन्दु 0 = q

x -अक्ष को तीन अलग-अलग बिन्दुओं पर प्रतिच्छेद करता है

0 = p बिन्दु 0 = q (D)

8. If the pair of linear equations $a_1x + 3y + c_1 = 0$ and $4x + b_2y + c_2 = 0$ has a unique solution, then 1

যদি $a_1x + 3y + c_1 = 0$ আৰু $4x + b_2y + c_2 = 0$ সমীকৰণ যোৰৰ এটা অদ্বিতীয়
সমাধান থাকে, তেন্তে

যদি $a_1x + 3y + c_1 = 0$ এবং $4x + b_2y + c_2 = 0$ সমীকৰণ জোড়াৰ একটি অদ্বিতীয়
সমাধান থাকে, তাহলে

জুদি $a_1x + 3y + c_1 = 0$ আৰু $4x + b_2y + c_2 = 0$ সমানথাই জৰানি মোনসে এখুথা
মাচকুথাই থায়ো, অব্লা

যদি $a_1x + 3y + c_1 = 0$ আৰু $4x + b_2y + c_2 = 0$ ঐতিক সমীকৰণ যুগ্ম কা এক
অদ্বিতীয় হল হৈ, তো

- (A) $a_1 = 3, b_2 = 4$ (B) $a_1 = 12, b_2 = 1$
 (C) $a_1 = 4, b_2 = 3$ (D) $a_1 = 5, b_2 = 1$

9. The coordinates of any point on the x -axis are 1

x -অক্ষৰ ওপৰত থকা যি কোনো বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব

x -অক্ষের উপৰে থকা যি কোনো বিন্দুৰ স্থানাংক হবে

x -গুদি হাঁখোনি সায়াব থানায় জায়খিজায়া বিন্দেনি থাবনিবিসানা জাগোন

x -অক্ষ পৰ কিসী ভী বিন্দু কে লিএ নিৰ্দেশাংক হোগা

- (A) $(x, 0)$ (B) $(0, y)$
 (C) (x, x) (D) (x, y)

10. The sum of the zeroes of the quadratic polynomial 1
 $p(x) = 4x^2 - 1$ is

দ্বিঘাত বহুপদ $p(x) = 4x^2 - 1$ ৰ শূন্যকেইটাৰ যোগফল হ'ব



দ্বিঘাত বহুপদ $p(x) = 4x^2 - 1$ -এৰ শূন্যগুলিৰ যোগফল হবে

জাগানি বিদাবগোৱা $p(x) = 4x^2 - 1$ নি লাথিখ'ফোৰনি দাজাবগাসৈয়া জাগোন

দ্বিঘাত বহুপদ $p(x) = 4x^2 - 1$ কে শূন্যকো কা যোগফল হোগা

- (A) -1 (B) 0
 (C) 2 (D) 4

11. The common difference of the AP $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}$ is

$\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}$ সমান্তর প্রগতিটোর সাধারণ অন্তর

$\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}$ সমান্তর প্রগতিটির সাধারণ পার্থক্য

$\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}$ সানলুলি জৈগাথিনি আগোসার ফারাগথিয়া

সমান্তর শ্রেণী $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}$ কা সাৰ্ব অন্তর হোগা

(A) greater than the common difference of the AP 2, 4, 6, 8

2, 4, 6, 8 সমান্তর প্রগতিটোর সাধারণ অন্তরতকে ডাঙৰ

2, 4, 6, 8 সমান্তর প্রগতিটির সাধারণ পার্থক্য থেকে বড়

2, 4, 6, 8 সানলুলি জৈগাথিনি আগোসার ফারাগথিনিখুই দেৱসিন

সমান্তর শ্রেণী 2, 4, 6, 8 কে সাৰ্ব অন্তর সে বড়

(B) equal to the common difference of the AP $\sqrt{32}, \sqrt{18}, \sqrt{8}$

$\sqrt{32}, \sqrt{18}, \sqrt{8}$ সমান্তর প্রগতিটোর সাধারণ অন্তর লগত সমান

$\sqrt{32}, \sqrt{18}, \sqrt{8}$ সমান্তর প্রগতিটির সাধারণ পার্থক্যের সঙ্গে সমান

$\sqrt{32}, \sqrt{18}, \sqrt{8}$ সানলুলি জৈগাথিনি আগোসার ফারাগথিজো সমান

সমান্তর শ্রেণী $\sqrt{32}, \sqrt{18}, \sqrt{8}$ কে সাৰ্ব অন্তর কে ব্রাবৰ

(C) equal to the common difference of the AP $\sqrt{50}, \sqrt{98}, \sqrt{162}$

$\sqrt{50}, \sqrt{98}, \sqrt{162}$ সমান্তর প্রগতিটোর সাধারণ অন্তর লগত সমান

$\sqrt{50}, \sqrt{98}, \sqrt{162}$ সমান্তর প্রগতিটির সাধারণ পার্থক্যের সঙ্গে সমান

$\sqrt{50}, \sqrt{98}, \sqrt{162}$ সানলুলি জৈগাথিনি আগোসার ফারাগথিজো সমান

সমান্তর শ্রেণী $\sqrt{50}, \sqrt{98}, \sqrt{162}$ কে সাৰ্ব অন্তর কে ব্রাবৰ

(D) greater than the common difference of the AP $\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}$ সমান্তর প্রগতিটোর সাধারণ অন্তরতকে ডাঙৰ

$\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}$ সমান্তর প্রগতিটির সাধারণ পার্থক্য থেকে বড়

$\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}$ সানলুলি জৈগাথিনি আগোসার ফারাগথিনিখুই দেৱসিন

সমান্তর শ্রেণী $\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}$ কে সাৰ্ব অন্তর সে বড়

12. If the base of a triangle is increased by 10% and the altitude is decreased by 10%, then the new area of the triangle

এটা ত্রিভুজের ভূমি 10% বড়াই দিয়া হ'ল আৰু উচ্চতি 10% হ্রাস কৰা হ'ল, গতিকে ত্রিভুজটোৰ নতুন কালি

একটি ত্রিভুজের ভূমি 10% বাঢ়িয়ে দেওয়া হলো এবং উচ্চতি 10% হ্রাস কৰা হলো, সুতৰাং ত্রিভুজটির নতুন ক্ষেত্রফল

মোনসে আখ্যান্থিথামনি হাসাখৌ 10% বাংহেনায় জাবায আৰু জৈথাইখৌ 10% খমায হোনায জাবায, অব্লা আখ্যান্থিথামনি গোদান দব্লাইথি

এক ত্রিভুজ কা আধাৰ 10% বড়া দিয়া গয়া আৰু ঊঁচাৰ্ই 10% ঘটা দী গई। ত্রিভুজ কা নয়া ক্ষেত্রফল

(A) remains the same



(B) decreases by 1%

একে থাকিব



1% হ্রাস হ'ব

একই থাকবে

1% হ্রাস পাৰে

এখে থাগোন

1% খমাযগোন

বৰাবৰ রহেগা

1% ঘট জাএগা

(C) increases by 10%



(D) increases by 11%

10% বাঢ়িব

11% বাঢ়িব

10% বাড়বে

11% বাড়বে

10% বাংগোন

11% বাংগোন

10% বढ় জাএগা

11% বढ় জাএগা

13. The point R divides the line segment AB , such that $AR = \frac{3}{4}AB$.

The ratio in which R divides AB is

R বিন্দুটোৱে AB ৰেখাখণ্ডক এনেদৰে ভাগ কৰিছে যাতে $AR = \frac{3}{4}AB$ হয়। R -এ AB ভাগ কৰা অনুপাতটো হ'ব

R বিন্দুটি AB ৰেখাখণ্ডটিকে এমনভাৱে ভাগ কৰছে যাতে $AR = \frac{3}{4}AB$ হয়। R -এর AB কে ভাগ কৰা অনুপাতটি হবে

R বিন্দোআ AB হাঁখোখোন্দোখৌ এৰোৱা বাহাগো খালামদো জাহাথে $AR = \frac{3}{4}AB$ জায়ো।

R আ AB খৌ বাহাগো খালামনায় রুথাইয়া জাগোন

R बिन्दु AB रेखा को इस तरह विभाजित करता है ताकि $AR = \frac{3}{4}AB$ होता है। R द्वारा

AB को विभाजित करने का अनुपत होगा

(A) 3 : 1



(C) 4 : 3

(B) 3 : 4

(D) 4 : 7

14. $P(-1, 0)$ is the centre of a circle and $Q(2, 4)$ is a point on this circle.

Three other points on this circle are

$P(-1, 0)$ एटा बृत्त केन्द्र आरु $Q(2, 4)$ बृत्तोर ओपरत एटा बिन्दु। बृत्तोर ओपरत थका आन तिनिटा बिन्दुबोर ह'व

$P(-1, 0)$ एकटि बृत्तेर केन्द्र एवं $Q(2, 4)$ बृत्तिर उपरे एकटि बिन्दु। बृत्तिर उपरे थका अन्य तिनिटि बिन्दु हवे

$P(-1, 0)$ मोनसे बेंखननि मिरु आरो $Q(2, 4)$ आ बेंखननि सायाव थानाय मोनसे बिन्दो। बेंखननि सायाव थानाय गुब्बुन मोनथाम बिन्दोआ जाबाय

$P(-1, 0)$ किसी वृत्त का केन्द्र है और $Q(2, 4)$ उसी वृत्त पर स्थित एक बिन्दु है। वृत्त पर स्थित तीन अन्य बिन्दु होंगे

(i) $(-6, 0)$



(ii) $(-1, 5)$

(iii) $(3, -3)$

(iv) $(0, -5)$

Choose the correct alternative.

शुद्ध विकल्पटो वाहि उलिओरा।

शुद्ध विकल्पटि बेछे नाओ।

गेबे खारिखौ सायख'ना दिहुन।

सही विकल्प चुनिए।

(A) Any three of the above

ओपरब यि कोनो तिनिटा

उपरेर ये कोनो तिनिटि

गोजौनि जायखिजाया मोनथाम

उपर्युक्त में से कोई तीन

(B) (ii), (iii) and (iv) only

मात्र (ii), (iii) आरु (iv)

मात्र (ii), (iii) एवं (iv)

(ii), (iii) आरो (iv) आल'

केवल (ii), (iii) और (iv)

(C) (i), (ii) and (iii) only

मात्र (i), (ii) आरु (iii)

मात्र (i), (ii) एवं (iii)

(i), (ii) आरो (iii) आल'

केवल (i), (ii) और (iii)

(D) (i), (iii) and (iv) only

मात्र (i), (iii) आरु (iv)

मात्र (i), (iii) एवं (iv)

(i), (iii) आरो (iv) आल'

केवल (i), (iii) और (iv)

15. The longest chord of a circle is called

बृहत्तर आटोइटकै दीघल ज्याडालक कोरा हय

बृहत्तेर सबथेके लम्बा ज्याटिके बला हय

बैंखननि बयनिख्वाइबो गोलाउसिन सिलिंहांखोखौ बुनाय जायो

वृत्त की सबसे लंबी जीवा को कहा जाता है

(A) radius

ब्यासार्थ

ब्यासार्थ

स'खाव

त्रिज्या

(B) arc

चाप

चाप

बोरला

चाप

(C) diameter

ब्यास

ब्यास

खावहांखो

व्यास

(D) major arc

मुख्य चाप

मुख्य चाप

बोरलामा

दीर्घ चाप

16. If $5x = \sec\theta$ and $\frac{5}{x} = \tan\theta$, then the value of $5\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$ is

যদি $5x = \sec\theta$ আৰু $\frac{5}{x} = \tan\theta$ হয়, তেন্তে $5\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$ -এর মান হ'ব



যদি $5x = \sec\theta$ এবং $\frac{5}{x} = \tan\theta$ হয়, তাহলে $5\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$ -এর মান হবে

জুড়ি $5x = \sec\theta$ আৰো $\frac{5}{x} = \tan\theta$ জায়ো, অব্লা $5\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$ নি মানা জাগোন

X

যদি $5x = \sec\theta$ ওৱে $\frac{5}{x} = \tan\theta$ হ'ব, তো $5\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)$ কা মান হোগা

(A) 5

(B) $\frac{1}{5}$

(C) 0

(D) -1



17. If the length of the tangent drawn from a point Q to a circle is 24 cm and the distance of Q from the centre of the circle is 25 cm, then the radius of the circle is

Q বিন্দুৰ পৰা এটা বৃত্তৰ স্পর্শকভালৰ দৈৰ্ঘ্য 24 cm আৰু বৃত্তটোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা Q বিন্দুৰ দূৰত্ব 25 cm হ'লে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব

Q বিন্দু থেকে একটা বৃত্তেৰ স্পর্শকেৰ দৈৰ্ঘ্য 24 cm এবং বৃত্তটিৰ কেন্দ্ৰ থেকে Q বিন্দুৰ দূৰত্ব 25 cm হলে বৃত্তটিৰ ব্যাসাৰ্ধ হবে

Q বিন্দোনিফ্রায় মোনসে বেঞ্চন সিম বোনায় নাংজিদ হাঁখোনি লাউথাইয়া 24 cm আৰো বেঞ্চননি মিসনিফ্রায় Q বিন্দোনি জানথাইয়া 25 cm জায়োব্লা, বেঞ্চননি স'খাবা জাগোন

Q বিন্দু সে এক বৃত্ত কী স্পৰ্শ-ৱেখা কী দূৰী 24 cm ঔৱে বৃত্ত কেন্দ্ৰ সে Q বিন্দু কী দূৰী 25 cm হ'ব। বৃত্ত কী ত্ৰিজ্যা কী লংবাঈ হোগৈ

(A) 7 cm

(B) 12 cm

(C) 15 cm

(D) 24.5 cm

18. If two cubes each of volume 64 cm^3 are joined end to end, then the surface area of the resulting cuboid is

प्रत्येकरे 64 cm^3 आयतनविशिष्ट दृटि घनक मूरे संयोग करा ह'ल। तेनेह'ले आयतीय घनकटोर पृष्ठकालि ह'व

प्रत्येक 64 cm^3 आयतनविशिष्ट दृटि घनक माथाय माथाय संयोग करा हलो। ताहले आयत घनकेर पृष्ठतलेर क्षेत्रफल हवे

मोनफ्रोमहाबो रोजागासै 64 cm^3 गोनां मोननै घनकखौ जोबथिझों जोबथिं फोनांजाबनाय जाबाय, अब्ला सोमजिनाय आयतारि घनकनि बिखुं दब्लाइथिया जागोन

दो घनों, प्रत्येक का आयतन 64 cm^3 है। यदि दोनों घनों को एक-दूसरे से सटा दिया जाए, तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा

(A) 160 cm^2



(B) 176 cm^2

(C) 128 cm^2

~~(D) 192 cm^2~~

19. If the median of the data $25, 30, x + 30, 35 + x, 40 + x$ arranged in increasing order is 35, then the value of x is

उक्तक्रमत सजोरा तथ्याजि $25, 30, x + 30, 35 + x, 40 + x$ रे मध्यमा 35 ह'ले, x -व मान ह'व

उक्तक्रमे साजानो तथ्यसमूह $25, 30, x + 30, 35 + x, 40 + x$ -एर मध्यमा 35 हले, x -ेर मान हवे

जौगाफारियाव साजायनाय गाहायनि खारिनि गेजेरमाया 35 जायोब्ला x नि माना जागोन

$25, 30, x + 30, 35 + x, 40 + x$

उक्तक्रम में व्यवस्थित आँकडे $25, 30, x + 30, 35 + x, 40 + x$ का माध्यक 35 है। x का मान होगा



(A) 35

~~(B) 5~~

(C) 25

(D) 10

20. The probability of getting a prime number greater than 2 in a single throw of a die is ।

এটা লুকুগুটি এবাব মাবিলে 2তকে ডাঙৰ মৌলিক সংখ্যা পোৱাৰ সন্তুষ্টিতা হ'ব
একটি পাশাগুটি একবাৰ ছুঁড়ে মারলে 2-এৰ থেকে বড় মৌলিক সংখ্যা পাওয়াৰ সন্তুষ্টিতা
হবে

মোনসে ডাইসখৌ খেবসে খুবৈনায়াব 2 নিখুই দেৱিসিন রেদা অনজিমা মোননায়নি জাথাবনায়া
জাগোন

এক পাসে কো এক বাৰ ফেঁকনে পৰ 2 সে বড়ী অভাজ্য সংখ্যা প্ৰাপ্ত হোনে কী প্ৰায়িকতা হোগী

(A) 1 ✓ (B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{2}{3}$ ✓ (D) $\frac{1}{3}$

21. If the area of a trapezium is 1350 m^2 and the sum of the lengths of its parallel sides is three times the height, then the height of the trapezium is ।

এটা ট্ৰেপিজিয়ামৰ কালি 1350 m^2 আৰু ইয়াৰ সমান্তৰাল বাহুৰে দীঘৰ সমষ্টি উচ্চতাৰ
তিনিণুণ হ'লে, উচ্চতা হ'ব

একটি ট্ৰেপিজিয়ামেৰ ক্ষেত্ৰফল 1350 m^2 এবং এৰ সমান্তৰাল বাহুগুলিৰ দৈৰ্ঘ্যেৰ সমষ্টি
উচ্চতাৰ তিনিণুণ হলে উচ্চতা হবে

মোনসে ট্ৰেপিজিয়ামনি দৰ্লাইথিয়া 1350 m^2 আৰো বেনি লিগ আখান্থিকোৱনি লাউথাইনি
দাজাবগাসৈয়া জৌথাইনি থামফান জাযোব্লা জৌথাইয়া জাগোন

এক সমলংব আকৃতি কা ক্ষেত্ৰফল 1350 m^2 হ'ব। ইসকী দোনো সমান্তৰ ভুজাওঁ কা যোগফল
ऊঁচাই সে তিগুনা হ'ব। আকৃতি কী ঊঁচাই হোগী

(A) 20 m ✓ (B) 10 m

(C) 60 m (D) 30 m

22. The smallest perfect square number which is divisible by 4, 9 and 10 is

4, 9 आरु 10 रे हवण करिव परा आटाइतकै सरु पूर्णवर्ग संख्याटो ह'व
 4, 9 एवं 10 दिये भाग करा याय एमन सवथेके छोटो पूर्णवर्ग संख्याटि हवेच
 4, 9 आरो 10 जॉ रानजानाय बयनिखुइ दुइसिन आबुं बर्ग अनजिमाया जागोन
 4, 9 और 10 से भाज्य सबसे छोटी वर्ग संख्या है

- (A) 144 (B) 900 (C) 3600 (D) 360

23. If the sum of the zeroes of $f(x) = kx^2 - 8x + 6$ is 4, then the value of k is

यदि $f(x) = kx^2 - 8x + 6$ रे शून्यांक समष्टि 4 हय, तेन्ते k रे मान ह'व

यदि $f(x) = kx^2 - 8x + 6$ -एर शून्योर समष्टि 4 हय, ताहले k -एर मान हवे

जुदि $f(x) = kx^2 - 8x + 6$ नि लाथिख'नि दाजाबगासैया 4 जायो, अब्ला k नि माना जागोन

यदि $f(x) = kx^2 - 8x + 6$ के शून्यकों का योगफल 4 है, तो k का मान होगा

- (A) 6 (B) 8 (C) 2 (D) 1

24. If a quadratic polynomial has two different zeroes, then the number of points in which the graph of the polynomial will intersect the x -axis is

एटा द्विघात बहुपद राशिर दुटा भिन्न शून्य थाकिले लेखडाले x -अक्षक छेद करा बिन्दुर संख्या ह'व

एकटि द्विघात बहुपद राशिर दुटि भिन्न शून्य थाकिले लेखाटि x -अक्षके छेद करा बिन्दुर संख्या हवे

मोनसे जौगानै विदाबगोबां राशिनि मोनै गुबुन गुबुन लाथिख' थायोब्ला बोसावगारिया x -गुदि हांख्या दानस'नाय बिन्दोनि अनजिमाया जागोन

एक द्विघात बहुपद के दो भिन्न शून्यक हैं। बहुपद का ग्राफ x -अक्ष को कितने बिन्दुओं पर विच्छेदित करेगा?

- (A) 2 (B) 3 (C) 1 (D) 4

25. Which of the following equations is a linear equation in one variable?

तलत दिया समीकरणविलाक्षण कोनटो एटा चलक्युक्त बैथिक समीकरण ?
 नीचे देओया समीकरणगुलिर कोनटि एकटि चलक्युक्त बैथिक समीकरण ?
 गाहायाव होनाय समानथाइफोरनि माबे मोनसे सोलायस्लु गोनां हांखोआरि समानथाइ?
 निम्नलिखित समीकरणों में से एक चर वाला रैखिक समीकरण कौन-सा है?

- (A) $2x = 3y$ (B) $x^2 - 3x + 5 = 0$
 (C) $3x + y = 0$ (D) $3t + 7 = 8t - 2$

26. The pair of equations $kx + 2y = 5$ and $3x + y = 1$ will have a unique solution if

$kx + 2y = 5$ आरु $3x + y = 1$ बैथिक समीकरण योबर एकक समाधान थाकिब यदि
 $kx + 2y = 5$ एवं $3x + y = 1$ बैथिक समीकरण जोड़ार एकक समाधान थाकबे यदि
 $kx + 2y = 5$ आरु $3x + y = 1$ हांखोआरि समानथाइ जरानि एखुथा मावफुथाइ थागोन
 जुदि

$kx + 2y = 5$ और $3x + y = 1$ रैखिक समीकरणों का एकल हल होगा, यदि

- (A) $k = 0$ (B) $k \neq 6$
 (C) $k = 2$ (D) $k = 3$

27. The number of roots of the equation $(x + 2)^3 = x^3 - 4$ is

$(x + 2)^3 = x^3 - 4$ समीकरणव गूलव संख्या इ'ल

$(x + 2)^3 = x^3 - 4$ समीकरणेव गूलव संख्या इलो

$(x + 2)^3 = x^3 - 4$ समानथाइनि रोदानि अनजिमाया जाबाय

$(x + 2)^3 = x^3 - 4$ समीकरण के मूलों की संख्या होगी

- (A) 3 (B) 1 (C) 4 (D) 2

28. Which of the following equations has two real and equal roots? 1

তলব কোনটো সমীকৰণৰ দুটা বাস্তৱ আৰু সমান মূল আছে?

নিচেৰ কোন্ সমীকৰণটিৰ দুটি বাস্তৱ এবং সমান মূল আছে?

গাহায়নি মাৰে সমানথাইনি মোননৈ নংগুৰৈ আৰো সমান রোদা দঁ?

নিম্নলিখিত মেঁ সে কিস সমীকৰণ কে দো বাস্তৱিক আৰু সমান মূল হৈ?

(A) $3x^2 + 14x - 5 = 0$

(B) $4x^2 + 2x - 1 = 0$

(C) ~~$9x^2 - 6x + 1 = 0$~~

(D) $x^2 - 5x + 4 = 0$

29. In an AP, the first term and last term are 1 and 11 respectively. If the sum of the terms in the AP is 36, then the number of terms is 1

এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম আৰু শেষ পদ ক্ৰমে 1 আৰু 11. যদি সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ পদবোৰৰ যোগফল 36 হয়, তেন্তে পদৰ সংখ্যা হ'ব

একটি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম এবং শেষ পদ ক্ৰমে 1 এবং 11. যদি সমান্তৰ প্ৰগতিটিৰ পদগুলিৰ যোগফল 36 হয়, তাহলে পদেৰ সংখ্যা হবে

মোনসে সানলুলি জীগাথিনি গিবি আৰো জোবথি বিদাবা ফারিয়ে 1 আৰো 11. জুদি সানলুলি জীগাথিনি বিদাবকোৰনি দাজাবগাসৈয়া 36 জায়ো, অল্লা বিদাবনি অনজিমায়া জাগোন

এক সমান্তৰ শ্ৰেণী কে প্ৰথম ঔৰ অন্তিম পদ ক্ৰমশ: 1 আৰু 11 হৈ। অগৰ শ্ৰেণী কে সভী পদোৰ যোগফল 36 হৈ, তো কুল পদোৰ কি সংখ্যা হোৱা?

(A) 6

(B) 8

(C) 10

(D) 12

30. 42 is a term of which of the following arithmetic progressions? 1

42 সংখ্যাটো তলব কোনটো সমান্তৰ প্ৰগতিৰ এটা পদ?

42 সংখ্যাটি নিচেৰ কোন্ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ একটি পদ?

42 অনজিমায়া গাহায়নি মাৰে সানলুলি জীগাথিনি মোনসে বিদাব?

নিম্নলিখিত মেঁ সে কিস সমান্তৰ শ্ৰেণী কা এক পদ 42 হোৱা?

(A) 92, 86, 80, ...

(B) 102, 95, 88, ...

(C) 2, 6, 10, ...

(D) 0, 8, 16, ...

31. In a $\triangle ABC$, $XY \parallel BC$. If $AB = 4BX$ and $YC = 2$ cm, then the value of AY is

$\triangle ABC$ त $XY \parallel BC$. यदि $AB = 4BX$ आर $YC = 2$ cm ह्य, तेणे AY व मान ह'व

$\triangle ABC$ ते $XY \parallel BC$. यदि $AB = 4BX$ एवं $YC = 2$ cm ह्य, ताहले AY -एर मान हवे

$\triangle ABC$ आर $XY \parallel BC$. जुदि $AB = 4BX$ आरो $YC = 2$ cm जायो, अब्ला AY नि माना जायोन

$\triangle ABC$ मे, $XY \parallel BC$ है। यदि $AB = 4BX$ और $YC = 2$ cm है, तो AY का मान होगा

(A) 4 cm

(B) 6 cm

(C) 5 cm

(D) 8 cm

32. If CM and RN are respectively the medians of $\triangle ABC$ and $\triangle PQR$ and if $\triangle ABC \sim \triangle PQR$, then which of the following is correct?

यदि CM आर RN क्रमे $\triangle ABC$ आर $\triangle PQR$ व मध्यमा ह्य, आर $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ह्य, तेणे त्वर कोनटो शुद्ध ?

यदि CM एवं RN क्रमे $\triangle ABC$ एवं $\triangle PQR$ -एर मध्यमा ह्य, एवं $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ ह्य, ताहले नीचेर कोनटि शुद्ध हवे ?

जुदि CM आरो RN फारिये $\triangle ABC$ आरो $\triangle PQR$ नि गेजेरमा जायो आरो $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ जायो, अब्ला गाहायनि माबे गेबे?

यदि CM और RN क्रमशः $\triangle ABC$ और $\triangle PQR$ की माध्यिकाएँ हैं और यदि $\triangle ABC \sim \triangle PQR$, तो निम्न मे से कौन-सा सही है?

(A) $\triangle AMC \sim \triangle PNR$

(B) $\triangle AMC \sim \triangle PRN$

(C) $\triangle AMC \sim \triangle NRP$

(D) $\triangle AMC \sim \triangle RNP$

33. The coordinates of the point A, where AB is a diameter of the circle whose centre is $(2, -3)$ and B is $(1, 4)$, are

1

एटा वृत्त व्यास AB. केन्द्र छांक $(2, -3)$ आरे B व्यासक $(1, 4)$ ह'ले A व्यासक ह'व

एकटि वृत्त व्यास AB. केन्द्र छांक $(2, -3)$ एवं B-एर छांक $(1, 4)$ हले A-एर छांक हवे

मोनसे बेख्वननि खावा AB. मिरुनि थावनि बिसाना $(2, -3)$ आरे B नि थावनि बिसाना $(1, 4)$ जायोब्ला A नि थावनि बिसाना जागोन

AB किसी वृत्त का व्यास है। वृत्त केन्द्र का निर्देशांक $(2, -3)$ और B बिन्दु का निर्देशांक $(1, 4)$ है। A बिन्दु का निर्देशांक होगा

(A) $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$



~~(B) $(2, 8)$~~

~~(C) $(3, -10)$~~

(D) $(-2, 3)$

34. The ratio in which the point $(-4, 6)$ divides the line segment joining the points $A(-6, 10)$ and $B(3, -8)$ internally is

1

$(-4, 6)$ बिन्दुटोरे $A(-6, 10)$ आरे $B(3, -8)$ संयोगी रेखाखण्डक अनुरिभव करा

अनुपातटो ह'ल

$(-4, 6)$ बिन्दु $A(-6, 10)$ एवं $B(3, -8)$ संयोगी रेखाखण्डक अनुरिभव करा
अनुपातटि हलो

$(-4, 6)$ बिन्दोआ $A(-6, 10)$ आरे $B(3, -8)$ बिन्दो दाजाबनाय हांखोखोन्दोखौ इसियै
रानग्या रुजुथाइया जाबाय?

$(-4, 6)$ बिन्दु $A(-6, 10)$ और $B(3, -8)$ बिन्दु संयोगी रेखाखण्ड को किस अनुपात में
विभाजित करेगा?

(A) $3:2$

~~(B) $2:3$~~

(C) $7:2$

~~(D) $2:7$~~

35. If $\sin A = \cos 33^\circ$, $A < 90^\circ$, then the value of A is

यदि $\sin A = \cos 33^\circ$, $A < 90^\circ$ है, तेंते A का मान ह'व

यदि $\sin A = \cos 33^\circ$, $A < 90^\circ$ है, ताहले A -एर मान हवे

जुदि $\sin A = \cos 33^\circ$, $A < 90^\circ$ जायो, अब्ला A नि माना जागोन

यदि $\sin A = \cos 33^\circ$ और $A < 90^\circ$ है, तो A का मान होगा

(A) 90°



(B) 33°

(C) 27°

(D) 57°

36. If $a \tan \theta = x$, $b \cot \theta = y$, then the value of xy is

यदि $a \tan \theta = x$, $b \cot \theta = y$ है, तेंते xy का मान ह'व

यदि $a \tan \theta = x$, $b \cot \theta = y$ है, ताहले xy -एर मान हवे

जुदि $a \tan \theta = x$, $b \cot \theta = y$ जायो, अब्ला xy नि माना जागोन

यदि $a \tan \theta = x$, $b \cot \theta = y$ है, तो xy का मान होगा

(A) $a + b$

(B) -1

(C) 1

(D) ab

37. If tangents PA and PB drawn from a point P to a circle with centre O are inclined to each other at an angle of 80° , then the value of $\angle POA$ is

यदि एटा बिन्दु P वरा O केन्द्र्यकृत एटा ब्त्तर PA आर PB स्पर्शककेइडाले परम्पर 80° कोणत हालि थाके, तेंते $\angle POA$ का मान ह'व

यदि एकटि बिन्दु P -एर थेके O केन्द्र्यकृत एकटि ब्त्तर PA एवं PB स्पर्शकगुलि परम्पर 80° कोणे बुँके थाके, ताहले $\angle POA$ -एर मान हवे

जुदि मोनसे बिन्दु P निकाय O मिरु गोनां बेखननि PA आर PB नांग्रिद हांखो दोनैया गावजॉगाव 80° खना आनायो, अब्ला $\angle POA$ नि माना जागोन

यदि O केन्द्रीय वृत्त पर P बिन्दु से खींची गई दो स्पर्श-रेखाएँ PA और PB 80° कोण बनाती हैं, तो $\angle POA$ का मान होगा

(A) 60°

(B) 50°

(C) 70°

(D) 80°

38. The degree measure of the angle at the centre of a circle of radius r is θ . The length of an arc of the sector is 1

r व्यासार्ध एटा वृत्त केन्द्रत कोणटोर डिग्री माप θ . वृत्तकलाटोर एटा चाप दैर्घ्य ह'व
 r व्यासार्ध एकटि वृत्तेर केन्द्रे कोणटिर डिग्री माप θ . वृत्तकलाटिर एकटि चापेर दैर्घ्य हवे

r स'खावनि मोनसे बेंखननि मिरुवाव ख'नानि डिग्रि जखाया θ . बेंखोन्दोनि मोनसे बोरलानि लाउथाइया जागोन

r प्रिज्या के किसी वृत्त के केन्द्र पर बने कोण की डिग्री माप θ है। वृत्तखंड के चाप की लंबाई होगी

- (A) $\frac{\theta\pi r}{90^\circ}$
(C) $\frac{\theta\pi r}{270^\circ}$



- (B) $\frac{\theta\pi r}{180^\circ}$
(D) $\frac{\theta\pi r}{360^\circ}$

39. The number of tangents drawn through a point inside a circle is 1

वृत्त भितवत थका बिन्दु एटा वाजेवे टानिव परा स्पर्शकव संख्या ह'ल
 वृत्तेर भितवे थाका एकटि बिन्दुर मध्य दिये टानते परा स्पर्शकेर संख्या हलो
 बेंखननि सिडाव थानाय बिन्दो मोनसेनि गेजेरजों बोनो हानाय नांग्रिद हांखोनि अनजिमाया जाबाय

वृत्त के भीतर किसी बिन्दु पर खांची जाने वाली स्पर्श-रेखा की संख्या है

- (A) 0

- (B) 1

- (C) 2

- (D) 3

40. If the circumference of a circle is 22 cm, then the area of a quadrant of the circle is 1

यदि एटा वृत्त परिधि 22 cm हय, तेनेह'ले वृत्तटोर एटा चोकब कालि ह'व
 यदि एकटि वृत्तेर परिधि 22 cm हय, ताहले वृत्तटिर एक-चतुर्थांशेर क्षेत्रफल हवे
 जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिंदि सिमाया 22 cm जायो, अब्ला बेंखननि मोनसे जखाइ-सैनि दब्लाइथिया जागोन

यदि किसी वृत्त की परिधि 22 cm है, तो वृत्त के एक-चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा

- (A) 77 cm^2



- (B) $\frac{77}{2} \text{ cm}^2$

- (C) $\frac{77}{8} \text{ cm}^2$

- (D) $\frac{77}{4} \text{ cm}^2$

41. The volume and surface area of a sphere are equal. The diameter of the sphere is 1

এটা গোলকের আয়তন আর পৃষ্ঠার সমান। গোলকটোর ব্যাস হ'ব

একটি গোলকের আয়তন এবং পৃষ্ঠার ক্ষেত্রফল সমান। গোলকটির ব্যাস হবে

মনসে দুলুরনি রেজাগাসৈ আরো বিখুঁ দল্লাইথিয়া সমান। দুলুরনি খাবা জাগোন

যদি কিসী গোলে কা আয়তন ঔর পৃষ্ঠীয ক্ষেত্রফল বরাবর হো, তো গোলে কা ব্যাস হোগা

(A) 3 units

3 একক

3 একক

3 সানগুদি

3 ইকাই

(C) 2 units

2 একক

2 একক

2 সানগুদি

2 ইকাই

(P) 6 units

6 একক

6 একক

6 সানগুদি

6 ইকাই

(D) 4 units

4 একক

4 একক

4 সানগুদি

4 ইকাই

42. The ratio of the volume of a cone and a cylinder having same radius and height is 1

একে ব্যাসার্ধ আর একে উচ্চতাযুক্ত এটা শঁকু আর এটা চুঙার আয়তনের অনুপাত হ'ব

একই ব্যাসার্ধ এবং একই উচ্চতাযুক্ত একটি শঁকু এবং একটি বেলনের আয়তনের অনুপাত হবে

এখে স'খাব আরো এখে জৌথাই গোনা মনসে জংহাসু আরো মনসে হাসুনি রেজাগাসৈনি রুজুথাইয়া জাগোন

বরাবর ত্রিজ্যা ঔর ঊঁচাই বালে এক শঁকু ঔর এক বেলন কে আয়তন কা অনুপাত হোগা

(A) $\sqrt{3} : 1$

(C) 1 : 2

(B) 1 : 3

(D) 3 : 1



43. If the difference of median and mode is 24, then the difference of mean and median is 1

मध्यमा आरु बहुलकव पार्थक्य 24, तेंदे माध्य आरु मध्यमाव पार्थक्य ह'व

मध्यमा एवं बहुलकेव पार्थक्य 24, ताहले माध्य एवं मध्यमाव पार्थक्य हवे

मोनसे गेजेरमा आरो गेजेरगानि फारागा 24, अब्ला गेजेरथि आरो गेजेरमानि फारागा जागोन

यदि किसी आँकडो के माध्यक और बहुलक का अन्तर 24 है, तो माध्य और माध्यक का अन्तर होगा

- (A) 10 (B) 12 (C) 14 (D) 13

44. A number is selected from the first 100 natural numbers. The probability that the number is divisible by 8 is 1

प्रथम 100 टा स्वाभाविक संख्याव परा एटा संख्या लोरा ह'ल। संख्याटो 8वे विभाज्य होराव स्तुतिता ह'ल

प्रथम 100 टा स्वाभाविक संख्या थेके एकटि संख्या नेओया हलो। संख्याटि 8 दिये विभाज्य होयाव स्तुतिता हलो

गिबि मोन 100 मिठिंगा अनजिमानिक्राय मोनसे अनजिमा लानाय जाबाय। अनजिमाया 8 जो रानजानायनि जाथावनाया जाबाय

पहली 100 प्राकृत संख्याओं में से कोई एक संख्या चुनी गई। उस संख्या के 8 से भाज्य होने की प्रायिकता है

- (A) $\frac{3}{25}$ (B) $\frac{8}{25}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{100}$

45. Which of the following cannot be the probability of an event? 1

तलव कोनटो एटा घटनाव स्तुतिता ह'व नोरावे?

नीचेर कोनटि एकटि घटनाव स्तुतिता हते पारेना?

गाहायनि मावे मोनसे जाथाइनि जाथावना जानो हाया?

निम्नलिखित में से कौन-सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती?

- (A) 0.225 (B) 0.6 (C) 1.2

- (D) $\frac{1}{3}$

SECTION—B / ખ—શાખા / ખ—શાખા / ખ—બાહારો / ખ—ભાગ

46. Factorise : $4x^4 + 1$

ઉત્પાદક વિશેષણ કરા : $4x^4 + 1$

ઉત્પાદકે વિશેષણ કરો : $4x^4 + 1$

દિહુનગિરિ વિજિર : $4x^4 + 1$

ગુણનખંડન કીજિએ : $4x^4 + 1$

47. Two ropes are of lengths 64 cm and 80 cm. Both are to be cut into pieces of equal length. What should be the maximum length of the pieces?

દૂડાલ બછીબ દૈર્ઘ્ય ક્રમે 64 cm આં અને 80 cm. દુયોડાલબ પવા સમાન દૈર્ઘ્યબ ટુકુબા કાટી ઉલિવાબ લાગે। અકનો બે નોયોરાકે દુયોડાલ બછીબ પવા કાટી ઉલિવાબ પવા તેને ટુકુબાબ સર્વાધિક દૈર્ઘ્ય કિમાન હ'બ?

દૂટી રશિર દૈર્ઘ્ય ક્રમે 64 cm એં 80 cm. દૂટી થેકે સમાન દૈર્ઘ્યેબ ટુકરો કેટે બેર કરતે હબે। દૂટી રશિ થેકે કેટે બેર કરા સેહિ ટુકરોબ સર્વાધિક દૈર્ઘ્ય કત હબે?

દૌનૈ દિરુનિ લાઉથાઇયા ફારિયૈ 64 cm આરો 80 cm. દૌનૈનિફાય સમાન લાઉથાઇનિ થુગ્રા હાસ'ના દિહુનનાંગૌ। ઇસેબો થાલાડા બાલાનો દૌનૈ દિરુનિફાય હાસ'ના દિહુનનો હાનાય બેબાદિ દેરસિન લાઉથાઇયા બેસેબાં?

64 cm ઔર 80 cm લંબાઈ વાલી દો રસ્સિયોં કો બરાબર લંબાઈ વાલે ટુકડોં મેં કાટ લેના હૈ તાકિ કુછ બચા ન રહે। ઉન ટુકડોં કી સર્વાધિક લંબાઈ કિતની હોગી?

48. If $\angle B$ and $\angle Q$ are acute angles of right angled triangles ABC and PQR such that $\sin B = \sin Q$, then prove that $\angle B = \angle Q$.

યદી સમકેળી ત્રિભૂજ ABC આં PQR બ લંબાઈ બાંધાની કોણોં દૂટો એનેધરણ યે $\sin B = \sin Q$, તેણે પ્રમાણ કરા યે $\angle B = \angle Q$.

યદી સમકેળી ત્રિભૂજ ABC એં PQR -એ લંબાઈ બાંધાની કોણોં દૂટો એઝી ધરનેર હય યે $\sin B = \sin Q$, તાહુલે પ્રમાણ કરો યે $\angle B = \angle Q$.

જુદિ ખનાથિ આખાનિથામ ABC આરો PQR નિ લંબાઈ બાંધાની કોણોં દૂટો ફોરા ખનાસા ખ'ના જાહાથે $\sin B = \sin Q$, અબ્લા ફોરમાન ખાલામ દિ $\angle B = \angle Q$.

યદિ $\angle B$ ઔર $\angle Q$ દો ન્યૂન કોણ હૈને ઔર $\sin B = \sin Q$, તો પ્રમાણિત કીજિએ કી $\angle B = \angle Q$.

49. In $\triangle PQR$, right angled at Q , $PQ = 3 \text{ cm}$ and $PR = 6 \text{ cm}$. Determine $\angle QPR$ and $\angle PRQ$. 2

$\triangle PQR$ व Q कोणटो 90° . यदि $PQ = 3 \text{ cm}$ आरु $PR = 6 \text{ cm}$, तेण्टे $\angle QPR$ आरु $\angle PRQ$ निर्णय करा।

$\triangle PQR$ -एव Q कोणटि 90° . यदि $PQ = 3 \text{ cm}$ एवं $PR = 6 \text{ cm}$, ताह्ले $\angle QPR$ एवं $\angle PRQ$ निर्णय करो।



$\triangle PQR$ नि Q खनाया 90° . जुदि $PQ = 3 \text{ cm}$ आरो $PR = 6 \text{ cm}$, अब्ला $\angle QPR$ आरो $\angle PRQ$ दिहुन।

$\triangle PQR$ का Q समकोण है। यदि $PQ = 3 \text{ cm}$ और $PR = 6 \text{ cm}$ हैं, तो $\angle QPR$ और $\angle PRQ$ ज्ञात कीजिए।



50. Two dice, one blue and one grey, are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 13? 2

एटा नीला आरु एटा छाइ बङ्गे दुटा लुडुण्टि एकेलगे मारि पठिओरा ह'ल। सकलो सष्टाव्य फलाफल लिखा। लुडुण्टि दुटात ओलोरा संख्यार समष्टि 13 होवार सष्टाविता किमान?

एकटि नील एवं एकटि छाइ रङ्गेर दुटि लुडुण्टि वा पाशा एकसঙ्गे हेँडा हलो। सबगुलि सष्टाव्य फलाफल लेखो। लुडुण्टि वा पाशा दुटिर उपरेर पृष्ठे भासा संख्यार समष्टि 13 होयार सष्टाव्यता कत?

गरसे नीला आरो गरसे फुरगेव गरनै दाइस एखे समावनो गारहरनाय जादो। गासैबो मोननो हाथाव फिथाइ मोननायखौ लिर। दाइसनि सा फारसे नुजाथिनाय मोननै अनजिमानि दाजाब गासैया 13 जानायनि जाथावनाया बेसेबां?

एक नीले और एक स्लेटी पासे एकसाथ फेंके गए। सभी संभाविता परिणाम लिखिए। ऊपर आने वाले दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 हो, इसकी क्या प्रायिकता है?

51. Solve the following pair of equations by reducing them to a pair of linear equations : 3

तलब समीकरण योरक बैथिक समीकरण योरलै कपास्त्र करि समाधान करा :

नीचेर समीकरण जोड़के बैथिक समीकरण जोड़ाय कपास्त्र करे समाधान करो :

गाहायनि समानथाइफोरखौ मोनसे हांखोआरि समानथाइ जरायाव सोलायनाई मावकुंथाइ दिहुन :

निम्लिखित समीकरण युम्म को रैखिक समीकरण में रूपान्तरित करके हल कीजिए :

$$\frac{7x - 2y}{xy} = 5, \quad \frac{8x + 2y}{xy} = 15$$

52. Find two consecutive odd positive integers, the sum of whose squares is 290. 3

दुटा क्रमिक अयुग्म योगात्मक अथशु संख्या उलिओरा यार बर्गव योगफल 290.

दुटि क्रमिक अयुग्म योगात्मक अथशु संख्या बेर करो यार बर्गेर योगफल 290.

मोननै फारि दाजाबथाइ 'बेज'रा ए' अनजिमाखौ दिहुन, जायनि बर्गफोरनि दाजाबगासैया 290.

दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक निकालिए, जिनके वर्ग का योग 290 हो।

53. A sum of ₹ 1,000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interests form an AP ? If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact. 3

1,000 टका बचवि 8% सरल सूत्र हाबत बिनियोग करा ह'ल। प्रति बच्चब अन्तत सूत किमान ह'ब, गणना करा। सूत्र एই परिमाणसमृहे एटा समान्त्र प्रगति गठन करेने ? यदि करे, एই तथाखिनिव सहायत 30 बच्चब अन्तत सूत्र परिमाण निर्णय करा।

1,000 टाका बांसरिक 8% सरल सुदेर हाबे बिनियोग करा हलो। प्रति बांसरेर शेषे सुद कत हबे, गणना करो। सुदेर एই परिमाणगुलि एकटि समान्त्र प्रगति गठन करे कि ? यदि करे, एই तथ्येर साहयो 30 बच्चरेर शेषे सुदेर परिमाण निर्णय करो।

बोसोरारि 8% गोरलै सुदाव 1,000 रां दोनथुमदोमोन। मोनफोर बोसोरनि जोबनायाव सुदखौ सानदिहुन। बै सुदफोर मोनफा सानलुलि जौगाथि दायो ना? जुदि दायो, बै थारथिखौ बाहायना 30 बोसोरनि जोबनायाव सुद दिहुन।

1,000 रुपए सालाना 8% वार्षिक साधारण व्याज दर पर निवेश किया गया। हर साल के बाद व्याज कितना होगा? क्या व्याज का सालाना परिमाण AP है? यदि है, तो इस आँकड़े की सहायता से 30 सालों के बाद मिलने वाले व्याज का परिमाण ज्ञात कीजिए।

54. Prove that if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar.

3

प्रमाण करा ये यदि एटा त्रिभुजवे एटा कोण आने एटा त्रिभुजवे एटा कोणवे समान हय आक सेहे कोणकेइटा गठन करा वाल्केइटा समानुपातिक हय, तेस्ते त्रिभुज दूटा सदृश ।

प्रमाण करो ये यदि एकटि त्रिभुजेर एकटि कोण अन्य एकटि त्रिभुजेर एकटि कोणेर समान हय एवं सेहे कोणगुलीर गठन करा वाल्गुली समानुपातिक हय, ताह्ले त्रिभुज दूटि सदृश ।

फोरमान खालाम दि जुदि मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे खनाया गुबुन मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे खनाजों समान आरो बे खनाखौ बानायनाय आखान्थिफोरा सेंरुजुथाइयारि जायो, अब्ला आखान्थिथाम मोननैया महरसे जायो ।

यदि एक त्रिभुज का एक कोण किसी अन्य त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उन कोणों की संगत भुजाएँ समानुपातिक हों, तो प्रमाणित कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं ।

55. Two opposite vertices of a square are $(-1, 2)$ and $(3, 2)$. Find the coordinates of other two vertices.

3

एटा वर्गक्षेत्रवे विपरीत शीर्षविन्दु दूटा ह'ल $(-1, 2)$ आक $(3, 2)$. वाकी शीर्षविन्दु दूटोर छानांक उलिओरा ।

एकटि वर्गक्षेत्रवे विपरीत शीर्षविन्दु दूटि हलो $(-1, 2)$ एवं $(3, 2)$. वाकी शीर्षविन्दु दूटिर छानांक बेर करो ।

मोनसे वर्ग दब्लाइनि मोननै उल्था थिखिनि बिन्दोफोरा $(-1, 2)$ आरो $(3, 2)$. गुबुन मोननै थिखिनि बिन्दोफोरनि थावनि बिसानखौ दिहुन ।

किसी वर्ग के दो विपरीत शीर्षों के निर्देशांक $(-1, 2)$ और $(3, 2)$ हैं। अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।

56. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with centre O from an external point T . Prove that $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

3

बहिःस्थ बिन्दु T से बिन्दु O केंद्रीय वृत्त पर TP और TQ दोनों स्पर्शक खेता हैं। प्रमाण करो ये $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

बहिःस्थ बिन्दु T -से O केंद्रीय वृत्त पर TP एवं TQ दोनों स्पर्शक टॉना हलो। प्रमाण करो ये $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

आहेरा बिन्दु T निकाय O मिळ गोनां बैंखनसिम TP आरो TQ दोनै नांग्रिद हांखो बोनाय जाबाय। फोरमान खालाम दि $\angle PTQ = 2\angle OPQ$.

आह्य बिन्दु T से O केंद्रीय वृत्त पर TP और TQ दो स्पर्श-रेखाएँ खांची गईं। प्रमाणित कीजिए कि $\angle PTQ = 2\angle OPQ$ हैं।

57. The cost of fencing a circular field at the rate of ₹ 24 per metre is ₹ 5,280. The field is to be ploughed at the rate of ₹ 0.50 per m². Find the cost of ploughing the field.

3

प्रति मिटारत 24 टका खाबत एखन वृत्ताकार पथावर बेब दिया कामत 5,280 टका खबू हय। पथावरखन प्रति बग्मिटारत 0.50 टका खाबत हल वाब लागे। पथावरखन वाल वोरा खबू निर्णय करो।

प्रति मिटारे 24 टका वारे एकटि वृत्ताकार खेत वा माठेर बेडा देओयार काजे 5,280 टका खराच हय। खेताति प्रति बग्मिटारे 0.50 टका वारे हल वैइते लागे। खेताति वाल वाओयार खराच निर्णय करो।

मोनसे बैंखनारि फोथारनि बेरानि बेसेना मोनफ्रोम मिटाराव 24 राडे 5,280 रां जायो। फोथारखौ मोनफ्रोम वर्ग मिटाराव 0.50 राडे हल एवनाय जाबाय। फोथारनि हल एवनाय बेसेनखौ दिहुन।

प्रति मीटर पर 24 रुपए की दर से एक वृत्ताकार खेत में चारों ओर बाड़ लगाने पर कुल 5,280 रुपए खर्च होते हैं। खेत में हल जोतने पर प्रत्येक वर्ग मीटर पर 0.50 रुपए का खर्च आता है। पूरे खेत में हल जोतने पर कुल खर्च ज्ञात कीजिए।

58. In a solid cylinder of height 12 cm and radius 5 cm, a conical hole is made. If the height and radius of the cone are same as that of the cylinder, then find the total surface area of the remaining solid.

3

12 cm উচ্চতা আৰু 5 cm ব্যাসাধিবিশিষ্ট এটা গোটা বেলনত এটা শংকু আকৃতিৰ গাঁত এটা তৈয়াৰ কৰা হ'ল। যদি শংকুটোৰ উচ্চতা আৰু ব্যাসাধি বেলনটোৰ লগত একে হয়, তেন্তে অৱশিষ্ট গোটা বস্তুটোৰ পৃষ্ঠকালি উলিওৱা।

12 cm উচ্চতা এবং 5 cm ব্যাসাধিবিশিষ্ট একটি শঙ্কু বেলনে শঙ্কু আকৃতিৰ একটি গুরুত্ব তৈয়াৰ কৰা হলো। যদি শঙ্কুটিৰ উচ্চতা এবং ব্যাসাধি বেলনটিৰ সঙ্গে একই হয়, তাহলে অৱশিষ্ট শঙ্কু বস্তুটিৰ পৃষ্ঠতলেৰ ক্ষেত্ৰফল বেৱ কৰো।

12 cm জৌথাই আৰো 5 cm স'খাব গোনাৰ মোনসে গথা হাসুভাব মোনসে জংহাসুঁ দাথাইনি দন্দৰ হাত্ব'নায জাবায। জুদি জংহাসুঁনি জৌথাই আৰো স'খাবা হাসুনিজোঁ এখে জাযো, অল্লা আদ্রা থানায গথা বেসাদনি গাসৈ বিখুঁ দল্লাইথিখৌ দিহুন।

12 cm ঊচাই ঔৰ 5 cm ত্ৰিজ্যা বালে এক ঠোস বেলন মেঁ শংকু আকৃতি কা এক গডঢা বনায় গয়া। যদি শংকু কী ঊচাই ঔৰ ত্ৰিজ্যা বেলন কে বৰাবৰ হৈন, তো শোষ বচী আকৃতি কা পৃষ্ঠীয় ক্ষেত্ৰফল জ্ঞাত কীজিএ।

59. Find the median of the following data which give the marks out of 50, obtained by 100 students in a test :

3

Marks Obtained	20	29	28	33	42	38	43	25
Number of Students	6	28	24	15	2	4	1	20

তলত দিয়া তালিকাখনে 50 নম্বৰৰ ভিতৰত পোৱা 100 ছাত্ৰৰ এটা টেষ্টৰ তথ্য দিছে।
মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰা :

লাভ কৰা নম্বৰ	20	29	28	33	42	38	43	25
ছাত্ৰৰ সংখ্যা	6	28	24	15	2	4	1	20

নিচে দেওয়া তালিকাটিতে 100 জন ছাত্ৰেৰ 50 নম্বৰেৰ ভিতৰে পাওয়া একটি টেষ্টেৰ তথ্য
দেওয়া হয়েছে। মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰো :

লাভ কৰা নম্বৰ	20	29	28	33	42	38	43	25
ছাত্ৰৰ সংখ্যা	6	28	24	15	2	4	1	20

गाहायाव होनाय संलाइया 50 नम्बरनि मादाव मोननाय सा 100 फरायसानि मोनसे टेष्टनि 80
खारिखौ होनाय जांदों। गेजेरमा दिहुन :

मोननाय नम्बर	20	29	28	33	42	38	43	25
फरायसाफोरनि अनजिमा	6	28	24	15	2	4	1	20

निम्लिखित आँकड़ों में 50 नंबर के एक टेस्ट में 100 छात्रों के प्राप्त नंबर दर्शाए गए हैं।
माध्यक ज्ञात कीजिए :

प्राप्त नंबर	20	29	28	33	42	38	43	25
छात्रों की संख्या	6	28	24	15	2	4	1	20

60. Draw a triangle ABC with sides $BC = 7 \text{ cm}$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle A = 105^\circ$.

Then construct a triangle whose sides are $\frac{4}{3}$ times the corresponding sides of $\triangle ABC$.

$BC = 7 \text{ cm}$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle A = 105^\circ$ युक्त ABC एटा त्रिभुज आँका। तार पिछत एटा त्रिभुज आँका यार बाह्योर $\triangle ABC$ व अनुकूप बाह्योर $\frac{4}{3}$ गुण।

$BC = 7 \text{ cm}$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle A = 105^\circ$ बाह्युक्त एकटि त्रिभुज ABC आँक। तारपर एकटि त्रिभुज आँक यार बाह्यगुलि $\triangle ABC$ -ेर अनुकूप बाह्यगुलिर $\frac{4}{3}$ गुण।

$BC = 7 \text{ cm}$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle A = 105^\circ$ जखानि ABC मोनसे आखान्थिथाम आखि। बेनिक्राय $\triangle ABC$ नि मोखांसे आखान्थिफोरनि $\frac{4}{3}$ फान आखान्थिनि मोनसे आखान्थिथाम आखि।

एक त्रिभुज ABC बनाइए, जिसमे $BC = 7 \text{ cm}$, $\angle B = 45^\circ$, $\angle A = 105^\circ$ हों। फिर अन्य एक त्रिभुज बनाइए, जिसकी भुजाएँ $\triangle ABC$ की संगत भुजाओं की $\frac{4}{3}$ गुनी हों।

61. If α, β are the zeroes of the polynomial $x^2 + bx + c$, then show

that $\frac{\alpha}{\beta}$ is a zero of the polynomial $cx^2 - (b^2 - 2c)x + c$. 4

যদি $x^2 + bx + c$ বহুপদটোর দুটা শূন্য α, β হয়, তেন্তে দেখুওৱা যে
 $cx^2 - (b^2 - 2c)x + c$ বহুপদটোৰ এটা শূন্য $\frac{\alpha}{\beta}$.

যদি $x^2 + bx + c$ বহুপদটিৰ দুটি শূন্য α, β হয়, তাহলে দেখাও যে
 $cx^2 - (b^2 - 2c)x + c$ বহুপদটিৰ একটি শূন্য $\frac{\alpha}{\beta}$.

জুদি $x^2 + bx + c$ বিদাবগোবানি মোননৈ লাথিখ'আ α, β জাযো, অব্লা ফোৰমান খালাম
 দি $cx^2 - (b^2 - 2c)x + c$ বিদাবগোবানি মোনসে লাথিখ'আ $\frac{\alpha}{\beta}$.

যদি $x^2 + bx + c$ বহুপদ কে দো শূন্যক α, β হো, তো দৰ্শাইএ কি
 $cx^2 - (b^2 - 2c)x + c$ বহুপদ কা এক শূন্যক $\frac{\alpha}{\beta}$ হোগা।

★ ★ ★